



# छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय

## प्रेस विज्ञप्ति

कल्याणपुर, कानपुर

उत्तर प्रदेश-208024

दिनांक: 30-11-2021

आज दिनांक 30-11-2021 को छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में विद्या परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक द्वारा की गई। इस बैठक में विभिन्न विषयों पर निर्णय लिए गए। बैठक में हिंदी विषय में शोध हेतु आचार्य डॉक्टर मुंशी शर्मा सोम शोध पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत हिंदी विषयों के शोधार्थियों को प्रतिमाह 5000 रुपये 3 वर्ष तक छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। छात्रों की सुविधा हेतु विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षकों को मूक कोर्सेज को तैयार करने के लिए मदद ली जाएगी। साथ ही वोकेशनल कोर्स के लिए वीडियो भी रिकॉर्ड करने का प्रस्ताव भी पास किया गया।

विद्या परिषद की बैठक में एडमिशन न होने के कारण बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इनफॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इनफॉर्मेशन साइंस, बी. वॉक फैशन टेक्नोलॉजी, एम.एस.सी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एम.एस.सी इन एनवायरमेंटल साइंस, एम.एस.सी इन इंटीग्रेटेड साइंस, एम.एस.सी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एडवांस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एम.एस.सी इन कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिसर्च मेथाडोलॉजी कोर्सेज बंद करने का निर्णय लिया गया। बैठक में विश्वविद्यालय में प्राचीन ज्ञान विभाग की स्थापना पर भी विचार किया गया।

विद्या परिषद की बैठक में विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में समान परीक्षा नियमावली पर विचार किया गया, जिसके तहत अब स्नातक स्तर पर सेमेस्टर परीक्षा सिस्टम से परीक्षा ली जाएगी। बैठक में विश्वविद्यालय परिषद में हॉबी क्लब बनाने पर भी विचार किया गया। इसके साथ ही जीव विज्ञान विभाग और बायो टेक्नोलॉजी का विलय करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी कर दिया गया।

बैठक में कुलसचिव अनिल यादव, सीडीसी डायरेक्टर डॉक्टर आरके द्विवेदी, डीन एकेडमिक्स डॉ अंशु यादव, डीन अधिष्ठाता डॉ सुधांशु पांडे, परीक्षा कंट्रोलर अंजनी कुमार मिश्र, डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रो.सुधीर अवस्थी, आदि लोग रहे।